

## प्रेस नोट

**मार्च 2021 परीक्षाओं हेतु विद्यालयी/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र 02 नवम्बर से होंगे लाईव**

भिवानी, 30 अक्टूबर, 2020 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2021 के लिए विद्यालयी/स्वयंपाठी पूर्ण विषय/आंशिक/पूर्ण विषय अंक सुधार/कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र 02 नवम्बर, 2020 से बोर्ड की वेबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर लाईव किये जा रहे हैं।

इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव श्री राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2021 के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क 02 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 100/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित 02 दिसम्बर से 08 दिसम्बर, 300/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित 09 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा 1000/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित 16 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित की गई है।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि सैकेण्डरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600+50 माईग्रेशन शुल्क कुल=650/-रुपये व 100/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषय/विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है, चाहे परीक्षार्थी Exempted Category का हो। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालयी परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय लेता है तो उसे परीक्षा शुल्क के अलावा 200/- रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि सैकेण्डरी स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 750/- रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 750+100 माईग्रेशन शुल्क कुल=850/- रुपये व 100/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषय/विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है, चाहे परीक्षार्थी Exempted Category का हो। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालयी परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय लेता है तो उसे परीक्षा शुल्क के अलावा 200/- रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 750/- रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि माईग्रेशन एवं प्रायोगिक विषय का शुल्क सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों से लिया जाना है। ऑनलाईन पंजीकरण के समय नियमित परीक्षार्थियों द्वारा जो विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लिया गया है उसे बाद में मुख्य विषय के रूप में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

बोर्ड सचिव श्री राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने विस्तारपूर्वक बताया कि जो परीक्षार्थी मार्च-2020 की परीक्षा में नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हुए थे व उनका परीक्षा परिणाम Not Qualified घोषित हुआ, ऐसे परीक्षार्थी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सभी विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि विद्यालयी/स्वयंपाठी परीक्षार्थी ऑनलाईन पंजीकरण के लिए शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर दिए गए लिंक पर लॉगिन करें। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश विद्यालय की लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध है। सभी विद्यालय मुखिया दिशा-निर्देशों को पढ़ने उपरान्त ही परीक्षार्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।

बोर्ड सचिव ने सभी सम्बन्धित विद्यालय के मुखियाओं को निर्देश देते हुए बताया कि उन द्वारा जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हैं, उनके विवरण विद्यालय रिकार्ड अनुसार सही होने चाहिए, इसलिए आवेदन को भली-भांति जांच लें। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होंगे। परीक्षा समाप्ति उपरान्त फोटो/हस्ताक्षर सम्बन्धी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। सभी विद्यालय मुखिया निर्धारित तिथियों में सभी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण एवं शुल्क जमा करवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता हेतु एवं दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त बारहवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता हेतु दो वर्षीय आई.टी.आई डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय की परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता हेतु परीक्षार्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों अतिरिक्त

विषय की परीक्षा के लिए तथा बारहवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता हेतु हिन्दी कोर या अंग्रेजी कोर दोनों में से किसी एक अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति स्कैन करवाने उपरान्त अपलोड करनी अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु हैल्पलाइन नम्बर 01664-254300 एवं 254309 पर सम्पर्क कर सकते हैं।